



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 माघ, 1941 (श०)

संख्या- 71 राँची, सोमवार,

3 फरवरी, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची

संकल्प

22 जनवरी, 2020

संख्या-5/आरोप-1-104/2017-463 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री जय कुमार राम, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच), के विरुद्ध इनके प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, माण्डू, रामगढ़ के पद पर कार्यावधि में मनरेगा अन्तर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में न्यूनतम प्रतिदिन 100 मानव दिवस प्रति ग्राम पंचायत मानव दिवस सृजन के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 35 मानव दिवस सृजन करने, माण्डु प्रखण्ड में डोभा निर्माण का कुल लक्ष्य 895 के विरुद्ध मात्र 513 पर ही कार्य प्रारंभ करने, माण्डु प्रखण्ड में लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 28% जॉब कार्ड का सत्यापन करने, 15 मार्च, 2017 तक सभी आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराने के विभागीय निदेश की अवहेलना करने, मनरेगा अन्तर्गत पूर्व से लम्बित योजनाओं को पूर्ण कर बंद करने संबंधी विभागीय निदेश की अवहेलना करने, मनरेगा अन्तर्गत delay payment एवं कुल सृजित परिसंपत्तियों के विरुद्ध मात्र 15% परिसंपत्तियों का ही जियो टैगिंग कराने संबंधी आरोप, जैसा कि ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1930, दिनांक 04.07.2017 द्वारा प्राप्त संलग्न प्रपत्र-क में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री राम के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री राम को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री राम द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री राम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री आनन्द गोपाल वर्मा, अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

| Sr No. | Employee Name G.P.F. No. | Decision of the Competent authority |
|--------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | JAI KUMAR RAM 110041163130 | श्री जय कुमार राम, झा0प्र0से0 तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, माण्डू, रामगढ़, के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है। |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
